

संदर्भ क्र.: प्र.का.नि.सं.प्र.: सुविमा.: 2025-26:225

दिनांक: 29.09.2025

स्क्रिप्ट कोड: BANKINDIA	स्क्रिप्ट कोड: 532149
उपाध्यक्ष - लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400 051.	उपाध्यक्ष - लिस्टिंग विभाग, बीएसई लिमिटेड, 25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001.

प्रिय महोदय/महोदया,

सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) - कोई परिवर्तन नहीं
रेपो आधारित उधार दर (आरबीएलआर) - कोई परिवर्तन नहीं
स्थिर दर प्रसार (एफआरएस) - परिवर्तित
दिनांक 01.10.2025 से लागू।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) और रेपो आधारित उधार दर (आरबीएलआर) को अपरिवर्तित रखा गया है। वर्तमान एमसीएलआर इस प्रकार है:

2. वर्तमान एम सी एल आर निम्नवत है-

प्रभावी दर की तिथि	ओवरनाइट एमसीएलआर	मासिक	त्रैमासिक	अर्द्ध वार्षिक	वार्षिक	तीन वार्षिक
01.10.2025	7.95%	8.30%	8.45%	8.70%	8.85%	9.00%

3. फिक्स्ड रेट रिटेल लोन के लिए फिक्स्ड रेट स्प्रेड (FRS) 1.75% किया गया है। 3 वार्षिक MCLR और FRS वाले फिक्स्ड रेट रिटेल लोन के लिए दिनांक 01.10.2025 से ब्याज दर 10.75% है। फिक्स्ड रेट रिटेल लोन के लिए ROI FRS (10.75%) + लागू CRP प्रारूप में उद्धृत किया जाता है।

4. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त पर ध्यान दें।

भवदीय,

-हस्ताक्षर-

(राजेश वी. उपाध्या)
कम्पनी सचिव